

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा - 1

मो0 - 8986915253

राजेन्द्र सरोवर, श्री नन्दन पथ,
छपरा (सारण) 841301

दिनांक 31/07/2023

पत्रांक 1152
प्रेषक,

ई0 अंजनी कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा - 1

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
दिघवारा, सारण।

विषय :- सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

आपके बैंक शाखा द्वारा निर्गत F.D. की विवरणी निम्नानुसार है, को सत्यापन हेतु समर्पित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	F.D. A/c No.	निर्गत करने की तिथि	रकम	अभ्युक्ति
1	44300300004658	09.11.2022	50000.00 ✓	
2	44300300004651	09.11.2022	200000.00 ✓	
3	44300300004648	09.11.2022	100000.00 ✓	
4	44300300004873	04.02.2023	335000.00 ✓	
5	44300300005053	06.05.2023	300000.00 ✓	
6	44300300005052	06.05.2023	300000.00 ✓	
7	44300300004440	16.08.2022	225000.00 ✓	
8	44300300004439	16.08.2022	225000.00 ✓	

अनुरोध है कि सत्यापन प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाए।

All the above mentioned
F.D.s have been issued
by us on 01/08/2023




विश्वासभाजन,
(ई0 अंजनी कुमार)
कार्यपालक अभियंता

31/07/23

गा0का0वि0,का0 प्रमंडल, छपरा - 1

31/07/23

Pledged in favour of EERWD WORKS DIVISION
CHAPRA-1 26/07/2023



DEEPU CONSTRUCTION

CO RAPUKAR SINGH
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL
841222
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44300300004658
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0911225631
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	443004000000030
शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
50000	09-11-2022	6.75	0 Months 399 Days	13-12-2023	53798

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज।	2. Automatic Renewal Clause.
1). यदि अन्यथा अनुदेश न दिया हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
2). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा।	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज।	6. Premature Withdrawal Clause.
1) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पैनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1% कम।	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
2) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पैनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांडे रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of EERWD WORKS DIVISION MARHAURA
26/07/2023
Rampur
16-6-23
Signature: [Signature]
Stamp: [Stamp]

Pledged in favour of EERWD WORKS DIVISION
CHAPRA-1 26/07/2023



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEEPU CONSTRUCTION	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44300300004648
CO RAPUKAR SINGH	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0911220807
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
841222	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44300400000030
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	2		
पैन नंबर / PAN No.	CSPPS7858A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
100000	09-11-2022	6.75	0 Months 399 Days	13-12-2023	107595

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काउंट रेट से 1% कम। ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काउंट रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in the favour of "EERWD WORKS DIVISION MARRAURA"
5/8/2023
41300300004648
26/07/2023
अभिभावक अधिव्यवस्था,
जमा राशि कार्य विभाग,
कार्य प्रबंधक, बड़ौदा।
09/11/2023



Bank of Baroda
BANK OF BARODA

Pledged in favour of EERWD WORKS DIVISION
CHAPRA-1 26/07/2023



DEEPU CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	4430000000000000
CO FAPUKAR SINGH		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0402/231731
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	COJ000709
841222		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	4430040000000030
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (S)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिली पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SLIP		
बिन्दन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	सम का अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
335000	04-02-2023	7.05	0 Months 299 Days	04-02-2024	331602

परिपक्वता मूल्य डिपॉजिट के हरेक वित्तवर्ष आयकर नियमों के अनुसार/ Maturity Value is subject to TDS (as per current income tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर परिवर्तन के अधिकार हैं।	1. ब्याज दर परिवर्तन के अधिकार हैं।
2. खाता नॉन-रिजिस्टर्ड होगा।	2. आतिथ्यिक/Temporary Deposit
3. यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की दर लागू होगी।	3. If Deposit is opened for a period of 1 year, 12 months. Deposits will be renewed for 1 year after the prevailing rate of interest is in effect at the time of automatic rollover.
4. यदि डिपॉजिट के लिए खाता पर 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की दर लागू होगी।	4. If Deposit is opened for a period of 1 year, 12 months. Deposits will be renewed for 1 year after the prevailing rate of interest is in effect at the time of automatic rollover.
5. फॉर्म 15C और 15D बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।	5. Form 15C and 15D are applicable to Resident individuals only.
6. डिपॉजिट धारकों को वार्षिक वित्तीय वर्ष में अपनी आय में जोड़ना होगा।	6. A deposit holder shall file ITR and report the deposit income in their annual income tax return.
7. ब्याज की दर बैंक द्वारा निर्धारित होगी।	7. Interest rate can be adjusted only after the approval of the Board of Directors.
8. डिपॉजिट के लिए बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	8. Deposits shall be subject to the terms and conditions of the Bank.
9. डिपॉजिट के लिए बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	9. Deposits shall be subject to the terms and conditions of the Bank.

Please note: This is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of "EERWD WORKS DIVISION
CHAPRA-1"

Executive Engineer
RWD, Division, Chapra-1

26/07/2023
26/07/2023



26/07/2023

DEEPU CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44300300005053
CO RAPUKAR SINGH VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL 841222 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0605230050
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44300400000030
		शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	30		
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अव्यस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
300000	06-05-2023	6.75	24 Months 0 Days	06-05-2025	342974

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में अवधि है
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज
3. कोई निवेदन न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दिए जाते हुए प्रचालित खाते को के अनुसार ब्याज की अवधि के लिए किया जाएगा
4. जमा 15 जो और 15एच निम्नलिखित खाते के लिए है
5. निम्नलिखित ब्याज दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक गुण 15 जो 15 एच 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी
6. जमा एक कलक वित्त वर्ष (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
7. परिपक्वता आहरण क्लॉज
8. 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समायुक्त दर करने पर 1% बंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू काई दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा
9. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समायुक्त दर करने पर 1.5% बंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू काई दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समायुक्त आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए
10. गैर प्रतियोगिता के अन्तर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है
11. Rate of Interest is in percentage per annum
12. Automatic Renewal Clause
13. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
14. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
15. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
16. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
17. Form 15H can be accepted only from senior citizens (Age of 60 years or more)
18. Premature Withdrawal Clause
19. i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank
20. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank
21. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Pledge in favor of EERWD Works Division, Chapra-1
16/05/2023

DEEPU CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44300300005052
CO RAPUKAR SINGH		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0605230032
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
841222		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44300400000030
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	30		
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
300000	06-05-2023	6.75	24 Months 0 Days	06-05-2025	342974

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज	2. Automatic Renewal Clause
i. यदि अवधि अवधि न होने से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देप नारीख पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देप नारीख पर प्रचलित व्याज दर के अनुसार अवधि के अवधि के लिए किया जाएगा।	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
3. फॉर्म 15 जी और 15एच निम्नलिखित शर्तों के लिए है।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
4. निवासी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी 15 एच 15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी।	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individual/s for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आह्वान क्लॉज:	6. Premature Withdrawal Clause
i. रु 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा।	i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii. रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समग्रपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। रु 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समग्र पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पूर्व बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।	ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
7. गैर प्रतिवेद्य जमा के अन्तर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Pledge in favor of EERWD Works Division
Chapra - 1

Subject Promised
16/05/2023

DEEPU CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	4430030004440
CO RAPUKAR SINGH		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1808220626
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
841222		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44300400000030
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	2		
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
225000	16-08-2022	6.00	9 Months 555 Days	22-02-2024	246267

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तिगत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). करांड तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांड रेट से 1% कम। ii). करांड से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांड रेट से 1.5% कम। करांड से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण में लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	6. Premature Withdrawal Clause : i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge in favour of "EE RWD WORKS DIVISION CHAPRA-1"
Pledge in favour of "EE RWD WORKS DIVISION SONPUR"
Release
22/03/2023
4 Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division, Sonpur
20/04/2023



DEEPU CONSTRUCTION	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44300300004439
CO RABUKAR SINGH	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1808220511
VILL NARAYANPUR PO PATTISITAL	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	GOJ000709
841222	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	443004000000030
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	DIGHWARA BIHAR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	RAM PUKAR SINGH
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
पैन नंबर / PAN No.	CSSPS7858A		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	भ्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
225000	18-08-2022	6.00	9 Months 155 Days	22-02-2024	2462.3

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. खाता नवीकरण बर्तोज	2. Automatic Renewal Clause
अ. खाते अन्वयता अनुदृष्ट में दिए हो तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए बी गेहूँ जमा राशि का नवीकरण टैब तारीख पर प्रदर्शित ब्याज दर की अनुसूची 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।	a) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ब. कोई निश्चित न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बी गेहूँ जमा राशि का नवीकरण टैब तारीख पर प्रदर्शित ब्याज दर की अनुसूची द्वारा ही अवधि के लिए किया जाएगा।	b) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. पहले 15 का और 15 एवं मिन निवारी खात के लिए है।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident.
4. निवारी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निश्चित राशि पूरा होने से पूर्व एक जवा 15 जी/15एच/15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा खाते पर कार कटौती की जाएगी।	4. A fresh 15G/15H/15H (if applicable) has to be submitted by the depositor before the end of each Financial Year, prior to closing the financial year, for which the deposit has been made.
5. कोई एक केवल धरित निवारी (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (above 60 years of age).
6. परिपक्वता आहरण बर्तोज	6. Premature Withdrawal Clause
अ. 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निवारी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसका काउंट रेट से 1% कम।	a) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than the rate of interest on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ब. 1 करोड़ से अधिक की बी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निवारी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसका काउंट रेट से 1% कम। 1 करोड़ से अधिक की बी जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	b) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than the rate of interest on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Revised - Pledged in favour of "EE RWD WORKS DIVISION SONEPUR"

Pledged in favour of EE RWD works
DIVISION CHAPRA-2
10/04/23



Project Period...
10/10/2022